

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(₹ करोड़)

क्षेत्र	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 24, 2023	2023	2024		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
			जन. 26	फर. 23		
		फर. 24	जन. 26	फर. 23	2023-24	2024
	1	2	3	4	%	%
I. बैंक ऋण (II+III)	13675235	13450269	16044693	16207362	18.5	20.5
			(15491457)	(15670957)	(14.6)	(16.5)
II. खाद्यान्न ऋण	19906	35276	45619	40502	103.5	14.8
III. गैर-खाद्यान्न ऋण	13655330	13414992	15999075	16166861	18.4	20.5
			(15445839)	(15630456)	(14.5)	(16.5)
1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	1728063	1695103	2012507	2035594	17.8	20.1
2. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े)	3380006	3335522	3617729	3647149	7.9	9.3
			(3600396)	(3629825)	(7.4)	(8.8)
2.1 सूक्ष्म और लघु	633587	621514	712636	717158	13.2	15.4
2.2 मध्यम	268557	265091	292257	299068	11.4	12.8
2.3 बड़े	2477861	2448917	2612836	2630923	6.2	7.4
3. सेवाएं	3736064	3651174	4456957	4514582	20.8	23.6
			(4343263)	(4413512)	(18.1)	(20.9)
3.1 परिवहन परिचालक	192059	184317	227665	228034	18.7	23.7
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	24921	23924	26922	27395	9.9	14.5
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	69331	68120	77360	76315	10.1	12.0
3.4 शिपिंग	7068	7277	7108	6859	-3.0	-5.7
3.5 विमानन	27640	27317	44372	43720	58.2	60.0
3.6 पेशेवर सेवाएं	139198	135703	162474	162780	16.9	20.0
3.7 व्यापार	872335	850220	985393	1007503	15.5	18.5
3.7.1 थोक व्यापार ¹	443168	435652	517895	531108	19.8	21.9
3.7.2 खुदरा व्यापार	429167	414569	467498	476395	11.0	14.9
3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	322573	320663	438435	442650	37.2	38.0
			(374173)	(390377)	(21.0)	(21.7)
3.9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) ² जिसमें से	1342070	1320445	1503342	1514928	12.9	14.7
3.9.1 आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी)	318729	311877	337673	337758	6.0	8.3
3.9.2 सार्वजनिक वित्त संस्थाएं (पीएफआई)	175714	178751	210586	213661	21.6	19.5
3.10 अन्य सेवाएं ³	738869	713189	983886	1004397	35.9	40.8
			(948677)	(969795)	(31.3)	(36.0)
4. व्यक्तिगत ऋण	4180838	4106965	5217944	5267835	26.0	28.3
			(4795805)	(4849890)	(16.0)	(18.1)
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	20983	20904	24160	23972	14.2	14.7
4.2 आवास	1988532	1962365	2660342	2682837	34.9	36.7
			(2264119)	(2290401)	(15.2)	(16.7)
4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	122116	113575	116251	119977	-1.8	5.6
4.4 शेयरों और बॉण्डों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	7634	7760	7413	8401	10.0	8.3
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	204708	197069	258524	258115	26.1	31.0
4.6 शिक्षा	96853	96170	117073	118708	22.6	23.4
4.7 वाहन ऋण	502377	495516	577279	582113	15.9	17.5
4.8 स्वर्ण आभूषण पर ऋण	89382	88748	101934	102458	14.6	15.4
4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	1148253	1124859	1354969	1371253	19.4	21.9
			(1329351)	(1346026)	(17.2)	(19.7)
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (मेमो)						
(i) कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियाँ ⁴	1746051	1721750	2032292	2052550	17.6	19.2
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यम ⁵	1645484	1631777	1943836	1962680	19.3	20.3
(iii) मध्यम उद्यम ⁶	423888	414656	469954	480245	13.3	15.8
(iv) आवास	622799	620610	756504	754645	21.2	21.6
			(659377)	(658400)	(5.7)	(6.1)
(v) शिक्षा ऋण	59513	59368	61984	62106	4.4	4.6
(vi) नवीकरणीय ऊर्जा	4670	4657	5404	5868	25.7	26.0
(vii) सामाजिक अवसंरचना	2464	2449	2581	2592	5.2	5.9
(viii) निर्यात ऋण	20489	19151	13102	12630	-38.4	-34.1
(ix) अन्य	60835	51197	64169	62553	2.8	22.2
(x) नेट पीएसएलसी- एसएफ /एमएफ सहित कमजोर वर्ग	1411633	1396746	1618611	1624823	15.1	16.3

टिप्पणियाँ:

- (1) डेटा अंतिम है। बैंक ऋण, खाद्य ऋण और गैर-खाद्य ऋण डेटा धारा-42 रिटर्न पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एसबीसी) शामिल हैं, जबकि क्षेत्रीय गैर-खाद्य ऋण डेटा क्षेत्र वार और उद्योग वार बैंक क्रेडिट (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित हैं जिसमें चुनिंदा बैंकों के लेखांकन के आधार पर महीने के अखिरी रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण के लगभग 95 प्रतिशत को शामिल किया गया है।
- (2) 28 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है। कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं हैं।
1. थोक व्यापार में खाद्य ऋण संघ के बाहर के खाद्य खरीद ऋण शामिल हैं।
2. एनबीएफसी के अंतर्गत एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं (एमएफआई), स्वर्ण ऋण से जुड़ी एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।
3. "अन्य सेवाओं" के अंतर्गत म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग व वित्त तथा अन्य सेवाएं जो सेवाओं के अंतर्गत अन्यत्र नहीं दर्शाए गए हैं।
4. प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ" में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल हैं।
5. प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "सूक्ष्म और लघु उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण शामिल है और इसमें पीएसएलसी भी शामिल हैं।
6. प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "मध्यम उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल है।